

डॉक्टर बनने के लिए अब 'एग्जिट एग्जाम' पास करना जरूरी

Patrika news network

Posted: 2015-06-01 12:25:27

IST Updated: 2015-06-01
12:33:23 IST



संक्षिप्त विवरण : देश में डॉक्टरों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए प्रयासरत सरकार ने एक नया कदम बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का उम्मीद है कि उसके इस कदम से डॉक्टरों की गुणवत्ता के स्तर में सुधार होगा।

नई दिल्ली।

देश में डॉक्टरों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए प्रयासरत सरकार ने एक नया कदम बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का उम्मीद है कि उसके इस कदम से डॉक्टरों की गुणवत्ता के स्तर में सुधार होगा। सरकार एक एग्जाम कंडैक्ट करने पर विचार कर रही है, जिसे एमबीबीएस पास करने वाले डॉक्टर्स को देना होगा।

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री की योजना के अनुसार एमबीबीएस पास करने वाले स्टूडेंट्स को एक 'एग्जिट एग्जाम' पास करना होगा। यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों के स्टूडेंट्स पर लागू होगा। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही स्टूडेंट्स पीजी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे।

फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जैमिनेशन के फॉर्मेट में परीक्षा

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक फिलहाल यह एग्जाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जैमिनेशन (एफएमजीई) के फॉर्मेट पर देनी होगी। मौजूदा व्यवस्था में यह परीक्षा उन डॉक्टरों को पास करनी होती है जो विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिस भारत में करना चाहते हैं। एफएमजीई को 2002 में एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रीनिंग टेस्ट माना गया था। बाद में एग्जिट परीक्षा का दूसरा फॉर्मेट शुरू किया जा सकता है।

एग्जिट एग्जाम पास करने वाले देश में कहीं भी कर सकेंगे प्रैक्टिस

खबर के अनुसार सरकार एग्जिट एग्जाम पास करने वाले डॉक्टरों के लिए अलग से 'ऑल इंडिया चैप्टर' बनाएगी। वर्तमान में डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के राज्य खंड से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। किसी दूसरे राज्य में जाने पर रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करवाना होता है, लेकिन अगर यह योजना लागू होती है तो एग्जिट एग्जाम को पास करने वाले डॉक्टर देश में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकेंगे।

Original Source of Information: <http://rajasthanpatrika.patrika.com/story/india/govt-plans-exit-exam-for-mbbs-doctors-1085382.html>

Important Details: This website (www.mbbsnow.com) is an informative website for News, Updates, Country and Colleges Details About MBBS/MD Admission Process Abroad, owner of this website and back office team members are not responsible for the published content, before making any decision based on the content available on this website, make sure that you have verified from the official websites of respective departments and your own sources.